



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2460]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2014/अग्राहायण 13, 1936

No. 2460]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2014/AGRAHAYANA 13, 1936

## कोयला मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2014

**का.आ.3054(अ).**-केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 की धारा 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 3185, तारीख 16 अक्टूबर, 2012 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि के 820.70 हेक्टर (लगभग) या 2027.95 एकड़ (लगभग) में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 778.54 हेक्टर (लगभग) या 1923.77 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार के अर्जन करने की, अपने आशय की सूचना देती है।

**टिप्पण 1:** इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या सी -1(ई)III/जेजेजेआर/905- 0114, तारीख 4 जनवरी, 2014 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - (पिन - 700 001) के कार्यालय में या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल ऐस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

**टिप्पण 2:** उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है :-

अर्जन की बाबत आपत्तियां :

"8. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण.**-इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता, यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।"

**टिप्पण 3:** केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 को उक्त अधिनियम की उप धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983, भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

### अनुसूची

साखरी इरावती (पौनी - III) ओपनकास्ट प्रोजेक्ट

बल्लारपुर क्षेत्र

जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

भाग-I

(रेखांक संख्या सी-1(ई) III/जेजेजेआर/905 - 0114, तारीख 4 जनवरी, 2014)

सभी अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र (हेक्टर में)			कुल	टिप्पण
					निजी	सरकारी	वन		
1	साखरी	2	राजुरा	चंद्रपुर	666.29	61.43	12.07	739.79	भाग
2	वरोडा	2	राजुरा	चंद्रपुर	36.95	1.80	0.00	38.75	भाग
कुल :					703.24	63.23	12.07	778.54	-

कुल क्षेत्र : 778.54 हेक्टर (लगभग)

या 1923.77 एकड़ (लगभग)

ग्राम साखरी में अधिग्रहित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

3, 120, 121, 147/1ए- 147/1बी- 147/1बी - 147/2- 147/3, 148/1ए- 148/1बी- 148/2, 149/1ए (भाग)- 149/2बी (भाग)- 149/3सी (भाग), 153, 246, 250/1- 250/2, 251/1- 251/2, 252/1- 252/2, 253/1- 253/2- 253/3- 253/4, 254/1- 254/2- 254/3- 254/4- 254/5, 255/1- 255/2- 255/3- 255/4- 255/5- 255/6- 255/7- 255/8- 255/9- 255/10, 256/1- 256/2, 257/1- 257/2, 258, 259/1ए- 259/1बी- 259/2, 260/1- 260/2ए- 260/2बी-

260/3, 261, 262, 263, 264/1- 264/2- 264/3, 268/1- 268/2- 268/3, 269, 270/1- 270/2, 271, 272/1- 272/2- 272/3- 272/4- 272/5, 273/1- 273/2, 274/1- 274/2- 274/3, 277/1- 277/2- 277/3, 278/1- 278/2- 278/3, 286/1- 286/2, 287, 288, 289/1- 289/2- 289/3, 290/1ए-1- 290/1ए-2- 290/2बी, 291/1- 291/2- 291/3, 292, 293/1- 293/2, 294/1- 294/2- 294/3, 295, 296, 297/1- 297/2, 298, 299/1- 299/2, 300/1- 300/2, 301/1- 301/2- 301/3ए- 301/3बी- 301/3सी, 302, 303, 304, 305/1- 305/2- 305/3- 305/4ए- 305/4बी, 306/1ए- 306/1बी- 306/2- 306/3- 306/4- 306/5, 307/1- 307/2- 307/3- 307/4, 308/1- 308/2- 308/3- 308/4- 308/5- 308/6- 308/7, 309, 310/1- 310/2, 311/1ए- 311/1बी- 311/2- 311/3- 311/4- 311/5- 311/6- 311/7, 312/1- 312/2- 312/3- 312/4- 312/5- 312/6- 312/7, 313/1- 313/2- 313/3- 313/4- 313/5, 314, 315/1- 315/2- 315/3, 316, 317/1- 317/2, 318/1- 318/2- 318/3- 318/4, 319, 320, 321/1ए- 321/2बी- 321/3सी- 321/4डी, 322, 323/1- 323/2ए- 323/2बी- 323/2सी- 323/2डी, 324/1ए- 324/1बी- 324/1सी- 324/1डी- 324/2ए- 324/2बी, 325/1- 325/2- 325/3, 326/1- 326/2- 326/3- 326/4, 327, 328, 329/1- 329/2- 329/3- 329/4, 330/1- 330/2, 331/1- 331/2, 332, 333/1- 333/2, 334/1ए- 334/1बी- 334/2- 334/3, 335/1- 335/2- 335/3- 335/4, 336/1- 336/2- 336/3- 336/4- 336/5, 337/1ए- 337/1बी- 337/1सी- 337/2ए- 337/2बी- 337/2सी, 338/1- 338/2- 338/3ए- 338/3बी- 338/4ए- 338/4बी, 339, 340, 341/1- 341/2- 341/3, 342/1ए- 342/1बी- 342/2, 343/1- 343/2- 343/3- 343/4- 343/5, 344/1- 344/2- 344/3, 345/1- 345/2- 345/3- 345/4, 346/1- 346/2- 346/3, 347, 348/1ए- 348/1बी- 348/2- 348/3- 348/4, 349/1- 349/2, 350/1- 350/2, 351, 352, 353, 354/1ए- 354/1बी- 354/2ए- 354/2बी, 355/1- 355/2, 356/1- 356/2, 357, 358/1- 358/2, 359, 360, 366/1- 366/2- 366/3, 367/1- 367/2- 367/3, 368/1ए- 368/1बी- 368/2, 369/1ए- 369/1बी- 369/1सी- 369/2, 370/1- 370/2, 371/1- 371/1बी- 371/1सी- 371/2, 372/1- 372/2, 373/1- 373/2- 373/3- 373/4, 374/1ए- 374/1बी- 374/1सी- 374/2- 374/3- 374/4, 375/1- 375/2, 376/1- 376/2- 376/3- 376/4, 377, 378/1ए- 378/1बी- 378/1सी- 378/2ए- 378/2बी- 378/2सी, 391/1- 391/2- 391/3- 391/4, 393 भाग, 394/1- 394/2- 394/3, 395/1- 395/2- 395/3, 396, 397, 398/1- 398/2- 398/3- 398/4- 398/5- 398/6- 398/7- 398/8- 398/9- 398/10, 399/1- 399/2- 399/3, 400/1ए- 400/1बी- 400/2, 401/1- 401/2- 401/2बी, 402, 403/1ए- 403/1बी- 403/2, 404, 405/1- 405/2, 406, 407, 408/1- 408/2, 409/1- 409/2, 410/1ए- 410/1बी- 410/2- 410/3- 410/4, 411/1- 411/2- 411/3, 412/1ए- 412/1बी- 412/2, 413/1ए- 413/1बी- 413/2ए- 413/2बी- 413/3, 414/1- 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420/1- 420/2, 421/1- 421/2- 421/3- 421/4, 422/1- 422/2- 422/3- 422/4- 422/5, 423/1- 423/2, 424/1- 424/2- 424/3, 425/1- 425/2- 425/3ए- 425/3बी, 426/1- 426/2ए- 426/2बी- 426/2सी- 426/3- 426/4, 427/1- 427/2, 428/1/1ए/1- 428/1/1ए/2- 428/1/2ए- 428/1बी- 428/1सी- 428/1डी- 428/1ई- 428/2, 429, 430/1- 430/2- 430/3, 431, 432, 433/1ए- 433/1बी- 433/2- 433/3, 434/1ए- 434/1बी- 434/2, 435/1- 435/2, 436/1- 436/2- 436/3, 437/1- 437/2, 438, 439/1- 439/2- 439/3, 440/2- 440/3, 441/1- 441/2, 442/1- 442/2, 443/1- 443/2, 447/1ए- 447/1बी- 447/1सी- 447/2- 447/3, 448/1ए- 448/1बी- 448/2ए- 448/2बी, 449/1- 449/2, 450/1- 450/2- 450/3- 450/4ए- 450/4बी- 450/5, 451/1ए- 451/1बी- 451/1सी- 451/1डी- 451/1ई- 451/1एफ- 451/2- 451/3, 452/1- 452/2- 452/3- 452/4, 453/1- 453/2, 454/1/1ए/1- 454/1/1ए/2- 454/1/1ए/3- 454/1/1ए/4- 454/1/2बी- 454/1/3सी- 454/2ए- 454/2बी- 454/2सी- 454/3ए- 454/3बी- 454/3सी, 455/1- 455/2, 456/1ए- 456/1बी- 456/2- 456/3- 456/4- 456/5, 457/1ए- 457/1बी- 457/2- 457/3- 457/4, 458/1- 458/2- 458/3- 458/4, 459/1- 459/2- 459/3- 459/4- 459/5, 460/1- 460/2, 461, 462/1- 462/2, 465/1ए- 465/1बी- 465/1सी-

465/2, 466/1- 466/2, 467/1ए- 467/1बी- 467/2ए- 467/2बी, 468/1- 468/2, 469/1- 469/2ए- 469/2बी, 470/1- 470/2, 471/1ए- 471/1बी- 471/2ए- 471/2बी, 472/1- 472/2- 472/3, 473/1- 473/2- 473/3, 475/1- 472/2ए- 475/2बी, 476, 477/1- 477/2, 478/1- 478/2, 479/1- 479/2, 480/1- 480/2- 480/3ए- 480/3बी, 481/1- 481/2, 482/1- 482/2- 482/3- 482/4- 482/5, 483/1ए- 483/1बी- 483/2, 484/1- 484/2, 485- 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493 (भाग), 556, 557 ।

सरकारी भूमि: 122, 440/1, 463, 464, नदी, नाला, सड़क ।

वनभूमि : 440/1भाग ।

ग्राम वरोडा में अधिग्रहित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

49/1- 49/2- 49/3, 70/1ए- 70/1बी- 70/2- 70/2बी, 81, 82, 83, 84, 95/1- 95/2, 96/1- 96/2, 97/1ए- 97/1बी- 97/2- 97/3- 97/4, 98/1- 98/2, 99, 100/1ए- 100/1बी- 100/2- 100/3- 100/4, 101/1ए- 101/2बी- 101/3सी, 106/1- 106/2, सरकारी भूमि 104/1 भाग.

सीमा वर्णन :

क – ख : रेखा ग्राम वरोडा में बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्यांक 49/1- 49/2- 49/3 की बाह्य सीमा के साथ जाती है फिर रेखा ग्राम वरोडा एवं साखरी की सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है फिर रेखा ग्राम साखरी में प्लॉट संख्या 493(भाग) से होकर जाती है, तत्पश्चात् रेखा ग्राम साखरी में प्लॉट संख्यांक 490, 491, 483/1ए- 483/1बी- 483/2, 480/1- 480/2- 480/3ए- 480/3बी, 479/1- 479/2, 478/1- 478/2, 477/1- 477/2, 475/1- 472/2ए- 475/2बी, 473/1- 473/2- 473/3, 557, 556 की बाह्य सीमा के साथ जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है ।

ख – ग : रेखा ग्राम साखरी में प्लॉट संख्यांक 556, 557, 469/1- 469/2ए- 469/2बी, 468/1- 468/2, 465/1ए- 465/1बी- 465/1सी- 465/2, 464 (सरकारी), 463 (सरकारी) की बाह्य सीमा के साथ जाती है, तत्पश्चात् साखरी आबादी की सीमा से लगकर जाती है फिर प्लॉट संख्यांक 120, 121 एवं 122 (सरकारी) की बाह्य सीमा से, उसी तरह पौनी -॥ खुली खदान, बाह्य सीमा के साथ जाती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है ।

ग – घ : रेखा पौनी - ॥ खुली खदान के लिए अधिग्रहित की हुई भूमि की बाह्य सीमा के साथ तथा प्लॉट संख्यांक 148/1ए- 148/1बी- 148/2 की बाह्य सीमा से लगकर तथा प्लॉट संख्यांक 149/1ए (भाग)- 149/2बी (भाग)- 149/3सी (भाग) से होकर जाती है, फिर रेखा लेंडी नाले से लगकर, उसी तरह प्लॉट संख्या 153, से लगकर जाती है फिर रेखा पुनः लेंडी नाले से लगकर और प्लॉट संख्यांक 286/1- 286/2, 287, 288 की बाह्य सीमा से जाती है फिर रेखा लेंडी नाला एवं साखरी नाले को काटती है फिर रेखा पौनी - ॥ खुली खदान के लिए अधिग्रहित की हुई भूमि की बाह्य सीमा के साथ तथा प्लॉट संख्यांक 262, 264/1- 264/2- 264/3, 268/1- 268/2- 268/3, 274/1- 274/2- 274/3, 278/1- 278/2- 278/3, 277/1- 277/2- 277/3, की बाह्य सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है ।

घ – ड. : रेखा ग्राम साखरी में प्लॉट संख्यांक 277/1- 277/2- 277/3, 274/1- 274/2- 274/3, 273/1- 273/2, 272/1- 272/2- 272/3- 272/4- 272/5, 252/1- 252/2, 250/1- 250/2, 246 की बाह्य सीमा के साथ जाती है और ग्राम चिंचोली (खुर्द) और ग्राम साखरी की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु 'ड.' पर मिलती है ।

ड. – च : रेखा प्लॉट संख्यांक 246, 250/1- 250/2, 251/1- 251/2, 253/1- 253/2- 253/3- 253/4, 254/1- 254/2- 254/3- 254/4- 254/5, 255/1- 255/2- 255/3- 255/4- 255/5- 255/6- 255/7- 255/8- 255/9- 255/10, 256/1- 256/2, 257/1- 257/2, 311/1ए- 311/1बी- 311/2- 311/3- 311/4- 311/5- 311/6- 311/7, 312/1- 312/2- 312/3- 312/4- 312/5- 312/6- 312/7, 313/1- 313/2-

313/3- 313/4- 313/5, 314, 315/1- 315/2- 315/3 की बाह्य सीमा के साथ साथ ग्राम चिंचोली (खुर्द) एवं ग्राम साखरी की सम्मिलित सीमा के साथ जाती है और ग्राम चिंचोली (खुर्द) ग्राम साखरी एवं हीरापुर की सम्मिलित सीमा के पास बिन्दु 'च' पर मिलती है।

च – छ : रेखा ग्राम साखरी एवं ग्राम हीरापुर की सम्मिलित सीमा के साथ तथा प्लॉट संख्यांक 315/1- 315/3- 315/3, 318/1- 318/2- 318/3- 318/4, 319, 320 की बाह्य सीमा से जाती है एवं साखरी नाले को काटती है फिर प्लॉट संख्यांक 321/1ए- 321/2बी- 321/3सी- 321/4डी, 360 की बाह्य सीमा के साथ साथ जाती है और ग्राम साखरी एवं ग्राम निमनी की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु 'छ' पर मिलती है।

छ – ज : रेखा ग्राम साखरी में प्लॉट संख्यांक 360, 359, 366/1- 366/2- 366/3, 367/1- 367/2- 367/3, 378/1ए- 378/1बी- 378/1सी- 378/2ए- 378/2बी- 378/2सी, 393 (भाग), 395/1- 395/2- 395/3, 391/1- 391/2- 391/3- 391/4, की बाह्य सीमा से लगकर जाती है फिर रेखा लेंडी नाले से गुजरती हुई ग्राम वरोडा एवं ग्राम साखरी की सम्मिलित सीमा से लगकर जाती है, वैसे ही रेखा प्लॉट संख्यांक 397, 440/2- 440/3 (सरकारी)- 440/1पी (वन)- 440/1 (सरकारी) की बाह्य सीमा लगकर जाती है। तत्पश्चात् रेखा ग्राम वरोडा में प्लॉट संख्यांक 106/1- 106/2, 104 (सरकारी) भाग, 101/1ए- 101/2बी- 101/3सी की बाह्य सीमा से लगकर जाती है और बिन्दु 'ज' पर मिलती है।

ज – क : रेखा ग्राम वरोडा में प्लॉट संख्यांक 101/1ए- 101/2बी- 101/3सी, 104/1 (सरकारी) भाग, 95/1- 95/2, 96/1- 96/2, 84, 81, 70/1ए- 70/1बी- 70/2- 70/2बी, 49/1- 49/2- 49/3 की बाह्य सीमा के साथ साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[ फा. सं. 43015/11/2012 - पीआरआईडब्ल्यू – I ]

दोमिनिक डुंगडुंग, अवर सचिव

## MINISTRY OF COAL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2014

**S.O. 3054(E)**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3185, dated the 16th October, 2012, issued under sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 820.70 hectares (approximately) or 2027.95 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire all rights in or over the land measuring 778.54 hectares (approximately) or 1923.77 acres (approximately) specified in the Schedule appended hereto.

**Note 1:** The plan bearing number C-1(E)III/JJR/905- 0114, dated the 4th January, 2014, of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Chandrapur (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata (Pin - 700 001) or in the office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra).

**Note 2:** Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows :—

Objections to acquisition:

- “8. (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

**Explanation.-** It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

**Note 3:** The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S.O. 2519, dated the 27th May, 1983, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11th June, 1983.

### SCHEDULE

#### SAKHARI IRAWATI (PAUNI – III) OPENCAST PROJECT

#### BALLARPUR AREA

#### DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

#### PART – I

(Plan bearing number C- 1(E)III/JJR/905 - 0114, dated the 4th January, 2014)

All Rights :

Sl. No.	Name of Village	Patwari Circle number	Tahsil	District	Area (In hectares)			Total	Remarks
					Tenancy	Govt.	Forest		
1	Sakhari	2	Rajura	Chandrapur	666.29	61.43	12.07	739.79	Part
2	Waroda	2	Rajura	Chandrapur	36.95	1.80	0.00	38.75	Part
TOTAL :					703.24	63.23	12.07	778.54	-

Total area : 778.54 hectares (approximately)

or 1923.77 acres (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Sakhari :

3, 120, 121, 147/1A- 147/1B- 147/1B- 147/2- 147/3, 148/1A- 148/1B- 148/2, 149/1A (Part)- 149/2B (Part)- 149/3C (Part), 153, 246, 250/1- 250/2, 251/1- 251/2, 252/1- 252/2, 253/1- 253/2- 253/3- 253/4, 254/1- 254/2- 254/3- 254/4- 254/5, 255/1- 255/2- 255/3- 255/4- 255/5- 255/6- 255/7- 255/8- 255/9- 255/10, 256/1- 256/2, 257/1- 257/2, 258, 259/1A- 259/1B- 259/2, 260/1- 260/2A- 260/2B- 260/3, 261, 262, 263, 264/1- 264/2- 264/3, 268/1- 268/2- 268/3, 269, 270/1- 270/2, 271, 272/1- 272/2- 272/3- 272/4- 272/5, 273/1- 273/2, 274/1- 274/2- 274/3, 277/1- 277/2- 277/3, 278/1- 278/2- 278/3, 286/1- 286/2, 287, 288, 289/1- 289/2- 289/3, 290/1A-1- 290/1A-2- 290/2B, 291/1- 291/2- 291/3, 292, 293/1- 293/2, 294/1- 294/2- 294/3, 295, 296, 297/1- 297/2, 298, 299/1- 299/2, 300/1- 300/2, 301/1- 301/2- 301/3A- 301/3B- 301/3C, 302, 303, 304, 305/1- 305/2- 305/3- 305/4A- 305/4B, 306/1A- 306/1B- 306/2- 306/3- 306/4- 306/5, 307/1- 307/2- 307/3- 307/4, 308/1- 308/2- 308/3- 308/4- 308/5- 308/6- 308/7, 309, 310/1- 310/2, 311/1A- 311/1B- 311/2- 311/3- 311/4- 311/5- 311/6- 311/7, 312/1- 312/2- 312/3- 312/4- 312/5- 312/6- 312/7, 313/1- 313/2- 313/3- 313/4- 313/5, 314, 315/1- 315/2- 315/3, 316, 317/1- 317/2, 318/1- 318/2- 318/3- 318/4, 319, 320, 321/1A- 321/2B- 321/3C- 321/4D, 322,

323/1- 323/2A- 323/2B- 323/2C- 323/2D, 324/1A- 324/1B- 324/1C- 324/1D- 324/2A- 324/2B, 325/1- 325/2- 325/3, 326/1- 326/2- 326/3- 326/4, 327, 328, 329/1- 329/2- 329/3- 329/4, 330/1- 330/2, 331/1- 331/2, 332, 333/1- 333/2, 334/1A- 334/1B- 334/2- 334/3, 335/1- 335/2- 335/3- 335/4, 336/1- 336/2- 336/3- 336/4- 336/5, 337/1A- 337/1B- 337/1C- 337/2A- 337/2B- 337/2C, 338/1- 338/2- 338/3A- 338/3B- 338/4A- 338/4B, 339, 340, 341/1- 341/2- 341/3, 342/1A- 342/1B- 342/2, 343/1- 343/2- 343/3- 343/4- 343/5, 344/1- 344/2- 344/3, 345/1- 345/2- 345/3- 345/4, 346/1- 346/2- 346/3, 347, 348/1A- 348/1B- 348/2- 348/3- 348/4, 349/1- 349/2, 350/1- 350/2, 351, 352, 353, 354/1A- 354/1B- 354/2A- 354/2B, 355/1- 355/2, 356/1- 356/2, 357, 358/1- 358/2, 359, 360, 366/1- 366/2- 366/3, 367/1- 367/2- 367/3, 368/1A- 368/1B- 368/2, 369/1A- 369/1B- 369/1C- 369/2, 370/1- 370/2, 371/1- 371/1B- 371/1C- 371/2, 372/1- 372/2, 373/1- 373/2- 373/3- 373/4, 374/1A- 374/1B- 374/1C- 374/2- 374/3- 374/4, 375/1- 375/2, 376/1- 376/2- 376/3- 376/4, 377, 378/1A- 378/1B- 378/1C- 378/2A- 378/2B- 378/2C, 391/1- 391/2- 391/3- 391/4, 393 Part, 394/1- 394/2- 394/3, 395/1- 395/2- 395/3, 396, 397, 398/1- 398/2- 398/3- 398/4- 398/5- 398/6- 398/7- 398/8- 398/9- 398/10, 399/1- 399/2- 399/3, 400/1A- 400/1B- 400/2, 401/1- 401/2- 401/2B, 402, 403/1A- 403/1B- 403/2, 404, 405/1- 405/2, 406, 407, 408/1- 408/2, 409/1- 409/2, 410/1A- 410/1B- 410/2- 410/3- 410/4, 411/1- 411/2- 411/3, 412/1A- 412/1B- 412/2, 413/1A- 413/1B- 413/2A- 413/2B- 413/3, 414/1- 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420/1- 420/2, 421/1- 421/2- 421/3- 421/4, 422/1- 422/2- 422/3- 422/4- 422/5, 423/1- 423/2, 424/1- 424/2- 424/3, 425/1- 425/2- 425/3A- 425/3B, 426/1- 426/2A- 426/2B- 426/2C- 426/3- 426/4, 427/1- 427/2, 428/1/1A/1- 428/1/1A/2- 428/1/2A- 428/1B- 428/1C- 428/1D- 428/1E- 428/2, 429, 430/1- 430/2- 430/3, 431, 432, 433/1A- 433/1B- 433/2- 433/3, 434/1A- 434/1B- 434/2, 435/1- 435/2, 436/1- 436/2- 436/3, 437/1- 437/2, 438, 439/1- 439/2- 439/3, 440/2- 440/3, 441/1- 441/2, 442/1- 442/2, 443/1- 443/2, 444/1A- 444/1B- 444/2- 444/3- 444/4, 445, 446/1- 446/2, 447/1A- 447/1B- 447/1C- 447/2- 447/3, 448/1A- 448/1B- 448/2A- 448/2B, 449/1- 449/2, 450/1- 450/2- 450/3- 450/4A- 450/4B- 450/5, 451/1A- 451/1B- 451/1C- 451/1D- 451/1E- 451/1F, 451/2- 451/3, 452/1- 452/2- 452/3- 452/4, 453/1- 453/2, 454/1/1A/1- 454/1/1A/2- 454/1/1A/3- 454/1/1A/4- 454/1/2B- 454/1/3C- 454/2A- 454/2B- 454/2C- 454/3A- 454/3B- 454/3C, 455/1- 455/2, 456/1A- 456/1B- 456/2- 456/3- 456/4- 456/5, 457/1A- 457/1B- 457/2- 457/3- 457/4, 458/1- 458/2- 458/3- 458/4, 459/1- 459/2- 459/3- 459/4- 459/5, 460/1- 460/2, 461, 462/1- 462/2, 465/1A- 465/1B- 465/1C- 465/2, 466/1- 466/2, 467/1A- 467/1B- 467/2A- 467/2B, 468/1- 468/2, 469/1- 469/2A- 469/2B, 470/1- 470/2, 471/1A- 471/1B- 471/2A- 471/2B, 472/1- 472/2- 472/3, 473/1- 473/2- 473/3, 475/1- 472/2A- 475/2B, 476, 477/1- 477/2, 478/1- 478/2, 479/1- 479/2, 480/1- 480/2- 480/3A- 480/3B, 481/1- 481/2, 482/1- 482/2- 482/3- 482/4- 482/5, 483/1A- 483/1B- 483/2, 484/1- 484/2, 485- 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493 (Part), 556, 557.

Government land : 122, 440/1, 463, 464, River, Nallah, Road.

Forest land : 440/1P.

Plot numbers to be acquired in village Waroda :

49/1- 49/2- 49/3, 70/1A- 70/1B- 70/2- 70/2B, 81, 82, 83, 84, 95/1- 95/2, 96/1- 96/2, 97/1A- 97/1B- 97/2- 97/3- 97/4, 98/1- 98/2, 99, 100/1A- 100/1B- 100/2- 100/3- 100/4, 101/1A- 101/2B- 101/3C, 106/1- 106/2, Government land 104/1 Part.

Boundary description :

- A – B : Line starts from Point 'A' in village Waroda and passes along the outer boundary of plot numbers 49/1- 49/2- 49/3, then line passes along the common village boundary of villages Waroda and Sakhari, then line passes through plot number 493 (Part) through village Sakhari. Then line passes along the outer boundary of plot numbers 490, 491, 483/1A- 483/1B- 483/2, 480/1- 480/2- 480/3A- 480/3B, 479/1- 479/2, 478/1- 478/2, 477/1- 477/2, 475/1- 472/2A- 475/2B, 473/1- 473/2- 473/3, 557, 556 and meets at Point 'B'.
- B – C : Line passes in village sakhri along the outer boundary of plot numbers 556, 557, 469/1- 469/2A- 469/2B, 468/1- 468/2, 465/1A- 465/1B- 465/1C- 465/2, 464 (Govt.), 463 (Govt.), then passes nearby Sakhari village Abadi, then line passes along the outer boundary of plot numbers 120, 121 and 122 Government, as well as boundary of Pauni – II Opencast Mine and meets at Point 'C'.
- C - D : Line passes along the acquired land boundary of Pauni – II Opencast Mine as well as along the outer boundary of plot numbers 148/1A- 148/1B- 148/2, then line passes through the plot numbers 149/1A (Part)- 149/2B (Part)- 149/3C (Part), then line passes along the Lendi Nallah as well as outer boundary of plot number 153, then again line passes along the lendi nallah and outer boundary of plot numbers 286/1- 286/2, 287, 288, then line crosses Lendi Nallah and Sakhari Nallah then line passes along the acquired land boundary of Pauni – II Opencast Mine, as well as along the outer boundary of plot numbers 262, 264/1- 264/2- 264/3, 268/1- 268/2- 268/3, 274/1- 274/2- 274/3, 278/1- 278/2- 278/3, 277/1 - 277/2 - 277/3 and meets at Point 'D'.
- D – E : Line passes through village Sakhari along the outer boundary of plot numbers 277/1- 277/2- 277/3, 274/1- 274/2- 274/3, 273/1- 273/2, 272/1- 272/2- 272/3- 272/4- 272/5, 252/1- 252/2, 250/1- 250/2, 246 and meets at common village boundary of villages Chincholi (Kh) and Sakhari.

- E – F : Line passes along the common village boundary of villages Chincholi (Kh.) and Sakhari as well as along the outer boundary of plot numbers 246, 250/1- 250/2, 251/1- 251/2, 253/1- 253/2- 253/3- 253/4, 254/1- 254/2- 254/3- 254/4- 254/5, 255/1- 255/2- 255/3- 255/4- 255/5- 255/6- 255/7- 255/8- 255/9- 255/10, 256/1- 256/2, 257/1- 257/2, 311/1A- 311/1B- 311/2- 311/3- 311/4- 311/5- 311/6- 311/7, 312/1- 312/2- 312/3- 312/4- 312/5- 312/6- 312/7, 313/1- 313/2- 313/3- 313/4- 313/5, 314, 315/1- 315/2- 315/3 and meets at Point 'F' on common village boundary of Chincholi (Kh.), Sakhari and Hirapur villages.
- F – G : Line passes along the common village boundary of village Sakhari and Hirapur as well as passes along boundary of plot numbers 315/1- 315/2- 315/3, 318/1- 318/2- 318/3- 318/4, 319, 320, crosses Sakhari Nallah then line passes along the outer boundary of plot numbers 321/1A- 321/2B- 321/3C- 321/4D, 360 and meets at Point 'G' on the common boundary of villages Sakhari and Nimni.
- G – H : Line passes through village Sakhari along outer boundary of plot numbers 360, 359, 366/1- 366/2- 366/3, 367/1- 367/2- 367/3, 378/1A- 378/1B- 378/1C- 378/2A- 378/2B- 378/2C, 393 (Part), 395/1- 395/2- 395/3, 391/1- 391/2- 391/3- 391/4, then line passesthrough Lendi nallah along the common village boundary of villages Waroda and Sakhari as well as along the outer boundary of plot numbers 397, 440/2- 440/3 (Govt.)- 440/1P (Forest)- 440/1 (Govt.) then line passes through village Waroda along the outer boundary of plot numbers 106/1- 106/2, 104 (Govt.) Part, 101/1A- 101/2B- 101/3C and meets at Point 'H'.
- H – A : Line passes in village Waroda along the outer boundary of plot numbers 101/1A- 101/2B- 101/3C, 104/1 (Govt.) Part, 95/1- 95/2, 96/1- 96/2, 84, 81, 70/1A- 70/1B- 70/2- 70/2B, 49/1- 49/2- 49/3 and meets at starting Point 'A'.

[F. No. 43015/11/2012-PRIW-1]

DOMINIC DUNG DUNG, Under Secy.